



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2042]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2011/कार्तिक 6, 1933

No. 2042]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2011/KARTIKA 6, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2450(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2833(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130) के 77.900 कि.मी. से 126.000 कि.मी. (रायपुर-बिलासपुर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 30 जनवरी, 2011 और 31 जनवरी, 2011 को क्रमशः "दैनिक भास्कर" और "नवभारत" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130) के कि.मी. 77.900 से कि.मी. 128.00 तक बाईपासों सहित (रायपुर-बिलासपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित : संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील/तालुका का नाम	गाँव का नाम	खसरा नं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल वर्ग मी.में.	हितबद्ध व्यक्तियों
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बिलासपुर	1 बिल्हा	(1) भोजपुरी	171	निजी	कृषि	400	श्यामजी पि. तुल
				172/2	निजी	कृषि	780	श्यामजी पि. तुल
				172/1	निजी	कृषि	200	भागवत पि. महाद
				173	निजी	कृषि	770	सुखितराम पि. रामहर
				200	निजी	कृषि	200	महेत्तर पि. दरशराम
				175	निजी	कृषि	1090	मोहितराम पि. मालिष
				176/1	निजी	कृषि	320	खेलावन पि. मयाराम
				176/2	निजी	कृषि	360	शिव कुमार पि. गनेश
				177	निजी	कृषि	610	कांति शान्ति पति सदा
				178	निजी	कृषि	2630	सुरेश पि. मुलचंद
				167	निजी	कृषि	850	तिजउ पि. समेलाल
				166/1	निजी	कृषि	80	शंकर पि. कार्तिकराम
				166/2	निजी	कृषि	80	संतोष पि. कार्तिकराम
				166/3	निजी	कृषि	80	बृजमोहन पि. कार्तिकराम
				166/4	निजी	कृषि	80	लोमन प्रसाद पि. कार्तिकर
				166/5	निजी	कृषि	80	लुखनप्रसाद पि. कार्तिकराम
				166/6	निजी	कृषि	80	कपिल पि. कार्तिकराम
				185	निजी	कृषि	720	सुरेश पि. मुलचंद
				194	निजी	कृषि	240	सुरेश पि. मुलचंद
				193	निजी	कृषि	1160	कैलाश चंद पि. मालूराम
				179	निजी	कृषि	770	सुरेश पि. मुलचंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				190	निजी	कृषि	80	श्यामजी पि. तुलसी
				192	निजी	कृषि	530	कैलाश चंद पि. मालूराम
				180	निजी	कृषि	650	कैलाश चंद पि. मालूराम
				181	निजी	कृषि	280	कैलाश चंद पि. मालूराम
				189	निजी	कृषि	7060	कैलाश चंद पि. मालूराम
				188	निजी	कृषि	780	कैलाश चंद पि. मालूराम
				227/3	निजी	कृषि	1100	कैलाश चंद पि. मालूराम
				227/1	निजी	कृषि	620	प्रेम लाल पि. अंजोरी वगै.
				187/1	निजी	कृषि	400	मोहितराम पि. मालिकराम
				187/2	निजी	कृषि	2590	सुन्दर पि. पटवारी वगै.
				67/2	निजी	कृषि	160	छाया सोनी पति प्रेमलाल
				67/3	निजी	कृषि	160	छाया सोनी पति प्रेमलाल
				67/4	निजी	कृषि	160	विक्रमसिंह पि. अजीतसिंह सिक्ख
				67/6	निजी	कृषि	160	विक्रमसिंह पि. अजीतसिंह सिक्ख
				102/2	निजी	कृषि	10	समेन्तल पि. निराधिन
				65/1	निजी	व्यवसायिक	400	श्याम अग्रवाल पि. रामेश्वर अग्रवाल
				65/2	निजी	कृषि	200	विरेंद्र कुमार पि. बाबूलाल
				65/3	निजी	कृषि	200	श्याम अग्रवाल पि. रामेश्वर अग्रवाल
				65/4	निजी	कृषि	200	कान्तराम एवं प्रकाश राय
				64/1	निजी	कृषि	810	संतोष पि. कार्तिकराम
				60/3	निजी	कृषि	1210	सहोदिक पि. पदुम
				60/5	निजी	कृषि	970	उदेसम पि. वैसाखू
				58/3	निजी	कृषि	1420	तीकिर अहमद पि. मोईद अहमद वगै.
				57/1	निजी	कृषि	2020	कतूराम पि. खपराम
				57/4	निजी	कृषि	690	दिनेश कुमार पि. मुखरी लाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				57/5	निजी	कृषि	4280	जोशेफ लकडा पि. बंगला लकडा
				269/6	निजी	कृषि	320	रामफाल पि. कुबरसिंह
				269/7	निजी	कृषि	380	गिरीश कुमार पि. जी.पी. जैशवानी
				279	निजी	कृषि	616	महीन्द्र सिंग कंग पि. भागत सिंग कंग
				269/4	निजी	कृषि	360	फुलेशिया पति बबराम
				268	निजी	कृषि	400	लखन लाल पि. मन्साराम
				266/1	निजी	कृषि	890	राजेन्द्र अग्रवाल पि. हजारी लाल
				267	निजी	कृषि	400	अमर सिंग पि. मुखीराम
				250	निजी	कृषि	320	भागवत पि. महादीन
				260/1	निजी	कृषि	490	भागवत पि. महादीन
				260/3	निजी	कृषि	160	अमर सिंग पि. मुखीराम
				249/1	निजी	कृषि	200	बलदेव पि. बाबूराम
				249/2	निजी	कृषि	240	बलदाउ पि. बाबूराम
				249/3	निजी	कृषि	320	मनिकलाल पि. बाबूराम
				19	निजी	कृषि	5408	माधो दगै. पि. फुलसिंग
				20/1	निजी	कृषि	530	जोशेफ लकडा पि. बंगला लकडा
				20/2	निजी	कृषि	2240	मार्या टोप्पो पति आर.एस. टोप्पो
				22	निजी	कृषि	336	कचराबाई पति जीवन
				23/2	निजी	कृषि	448	ज्ञानसिंग पि. खुशियासिंग
				23/1	निजी	कृषि	3850	ज्ञानसिंग पि. खुशियासिंग
				23/3	निजी	कृषि	672	ज्ञानसिंग पि. खुशियासिंग
				57/2	निजी	कृषि	6900	मातूराम पि. रुपराम
				24/1	निजी	कृषि	110	रजीत सिंग पि. कारीलूस टोप्पो
				57/3	निजी	कृषि	2020	जोशेफ लकडा पि. बंगला लकडा
				303/1	निजी	कृषि	1728	हरीश सालूजा पि. सारदारी लाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				303/8	निजी	कृषि	280	अक्षय पि. गणेश प्रसाद अग्रवाल
				303/7	निजी	कृषि	450	हरीश पि. सारदारी लाल
				300	निजी	कृषि	1320	भीमसेन पि. मनोहर लाल वर्मा
				299	निजी	कृषि	1740	विरेन्द्र पि. बाबूलाल वर्मा
				297/1	निजी	कृषि	1612	बलदेव पि. बाबूराम
				296/1	निजी	कृषि	1456	उदेराम पि. बैसाखू
				296/3	निजी	कृषि	1064	कु. प्रभा पि. सुरजमान
				290/2	निजी	कृषि	1440	काशीराम वर्मा. पि. बहादुर
				280/1	निजी	कृषि	100	दिपेश सिंग पि. नारायण सिंग
				280/2	निजी	व्यवसायिक	1210	सेवासिग पि. मोहन सिंह वर्मा
				280/3	निजी	व्यवसायिक	400	सेवासिग पि. मोहन सिंह वर्मा
				280/4	निजी	कृषि	420	विजय कुमार पि. एम.एल. गुप्ता
				280/5	निजी	व्यवसायिक	450	सिवराम पि. सेवाराम
				280/6	निजी	कृषि	3640	राजेन्द्र अग्रवाल पि. हजारी लाल
				281/1	निजी	कृषि	100	मनोहर पि. फुलसिंग
				168	शासकीय	घास	200	छ.ग. शासन
				228/1	शासकीय	छोटे झाड़ के जंगल	3900	छ.ग. शासन
				228/1	शासकीय	तालाब	13780	छ.ग. शासन
				67/5	शासकीय	आबादी	450	छ.ग. शासन
				67/1	शासकीय	छोटे झाड़ के जंगल	450	छ.ग. शासन
				68	शासकीय	छोटे झाड़ के जंगल	120	छ.ग. शासन
				147	शासकीय	पानी के नीचे	4050	छ.ग. शासन
				437	शासकीय	घास	490	छ.ग. शासन
				438	शासकीय	घास	1210	छ.ग. शासन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				228/5	शासकीय	आबादी	1090	छ.ग. शासन
				210	शासकीय	पानी के नीचे (नदी)	7800	छ.ग. शासन
			2 मोहदा	716	निजी	व्यवसायिक भूमि	2100	स्नेहिल पि. शिवकुमार पि. मुलचंद
				715	निजी	कृषि	3700	माधो, मनोहर पि. फुलसिंग वगै.
				935	निजी	कृषि	910	राजेन्द्र सवान्नी पि. इन्द्रसेन सवन्नी
				931	निजी	कृषि	1350	राजेन्द्र सवान्नी पि. इन्द्रसेन सवन्नी
				930/3	निजी	कृषि	1850	प्रदीप कुमार पि. चमन लाल चडढा
				928/2	निजी	कृषि	40	खम्हन, सम्हन वगै. पि. सिरदारी
				925	निजी	कृषि	2500	प्रदीप कुमार पि. चमन लाल चडढा
				924	निजी	कृषि	2020	मथुराप्रसाद पि. रामचरण
				888/1	निजी	कृषि	570	खम्हन, सम्हन वगै. पि. सिरदारी
				888/5	निजी	कृषि	80	खम्हन, सम्हन वगै. पि. सिरदारी
				888/6	निजी	कृषि	400	मनोज पि. नंदलाल जैलवानी
				995/1, 995/2, 995/3, 995/4, 995/5	निजी	कृषि	960	मनीष अग्रवाल पि. महेशचन्द्र, आनंद खडिया पि. राधेश्याम खडिया,
				994	निजी	कृषि	288	बलदाउप्रसाद पि. बाबूराम
				993/2, 993/3	निजी	कृषि	700	राजेन्द्र अग्रवाल पि. हजारी प्रसाद, बैभव पि. के.के. श्रीवास्तव
				990/2	निजी	कृषि	1480	हजारी लाल पि. समुन्द्रम
				976/1	निजी	कृषि	120	राधेश्याम खडिया पि. चुपिलाल
				975	निजी	कृषि	80	राधेश्याम खडिया पि. चुपिलाल
				974/4	निजी	कृषि	160	राधेश्याम खडिया पि. चुपिलाल
				973/2	निजी	कृषि	200	सुरेश चन्द्र पि. गनपत राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				967/1	निजी	कृषि	240	पद्म श्रीवास्तव पि. के.के. श्रीवास्तव
				959/1	निजी	कृषि	180	प्रदीप कुमार पि. चमन लाल चड्ढा
				959/2	निजी	कृषि	180	पद्म श्रीवास्तव पि. के.के. श्रीवास्तव
				958/1	निजी	कृषि	490	गेंदाराम पि. तमेन्दा
				957/1	निजी	कृषि	100	पवन कुमार पि. राधेश्याम
				955/1	निजी	कृषि	160	हरीश पि. राधेश्याम अग्रवाल
				955/3	निजी	कृषि	180	विवेन्द्र कुमार पि. बाबूलाल वर्मा
				954/3	निजी	कृषि	400	सेवक राम पि. धनवार
				954/2	निजी	कृषि	400	कुसुमदेवी पति बृजमोहन वर्मा
				947/1	निजी	कृषि	400	राजकुमार पि. बजरंग खेड़िया
				945	निजी	कृषि	1050	अब्दुल गफ्फार पि. अब्दुल सत्तार
				944/1-3	निजी	कृषि	1050	पुष्पादेवी पति दुर्गाप्रसाद
				944/2	निजी	कृषि	1290	वाई राजकेश्वर पि. वाई आर कृष्ण
				937	निजी	कृषि	280	कमला पि. पी.बी. बाबू लिंक रोड
				721/1	शासकीय	छोटे झाड़ के जंगल	15610	छ.ग. शासन
				883	शासकीय	पानी के नीचे	60	छ.ग. शासन
				882	शासकीय	छोटे झाड़ के जंगल	10	छ.ग. शासन
				887	शासकीय	छोटे झाड़ के जंगल	4900	छ.ग. शासन
				946	शासकीय	छोटे झाड़ के जंगल	80	छ.ग. शासन

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2011

S.O. 2450(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways under S.O2833(E), dated the 24th November, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /four/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 200 (New NH-130), on the stretch of land from Km 77.900 to Km 126.000 (Raipur-Bilaspur Section) in District Bilaspur in the State of Chhattisgarh;

And whereas the substance of the said notification has been published in the "Dainik Bhaskar" and "Navbharat", dated the 30th January 2011 and the 31st January, 2011, respectively, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 77.900 to. Km. 126.000 (Raipur-Bilaspur Section) including bypass of the National Highway No.200 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh.

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil/taluk	Name of the village	Khasra number	Type of land	Nature of land	Area(Square meters)	Name of Person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bilaspur	1. Bihna	(1) Bhojpuri	171	Private	Agricultural	400	Shyamji S/o Tulai
				172/2	Private	Agricultural	760	Shyamji S/o Tulai
				172/1	Private	Agricultural	200	Bhagwat S/o Mahadeva
				173	Private	Agricultural	770	Sukhitram S/o Ramhari Goud
				200	Private	Agricultural	200	Mahetar S/o Darasram etc.
				175	Private	Agricultural	1060	Mohitram S/o Malikram etc.
				176/1	Private	Agricultural	320	Khelawan S/o Mayaram etc.
				176/2	Private	Agricultural	360	Shiv kumar S/o Ganesh etc.
				177	Private	Agricultural	610	Kanti Shanti W/o Sadasi
				178	Private	Agricultural	2630	Suresh S/o Moolchand
				167	Private	Agricultural	850	Tijau S/o Samelal
				166/1	Private	Agricultural	80	Shankar S/o Kartikram
				166/2	Private	Agricultural	80	Sansosh S/o Kartikram
				166/3	Private	Agricultural	80	Brijmohan S/o Kartikram
				166/4	Private	Agricultural	80	Lomen Prasad S/o Kartikram
				166/5	Private	Agricultural	80	Lukhanprasad S/o Kartikram
				166/6	Private	Agricultural	80	Kapil S/o Kartikram
				165	Private	Agricultural	720	Suresh S/o Moolchand
				164	Private	Agricultural	240	Suresh S/o Moolchand
				163	Private	Agricultural	1160	Kailash Chand S/o Mahu ram
				179	Private	Agricultural	770	Suresh S/o Moolchand
				160	Private	Agricultural	80	Shyamji S/o Tulai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				192	Private	Agricultural	530	Kailash Chand S/o Malu ram
				180	Private	Agricultural	650	Kailash Chand S/o Malu ram
				181	Private	Agricultural	280	Kailash Chand S/o Malu ram
				189	Private	Agricultural	7060	Kailash Chand S/o Malu ram
				188	Private	Agricultural	780	Kailash Chand S/o Malu ram
				227/3	Private	Agricultural	1100	Kailash Chand S/o Malu ram
				227/1	Private	Agricultural	620	Prem Lal S/o Anjori etc.
				187/1	Private	Agricultural	400	Mohitram S/o Malikram etc.
				187/2	Private	Agricultural	2590	Sunder S/o Patwari etc.
				67/2	Private	Agricultural	160	Chhaya Soni W/o Premlal
				67/3	Private	Agricultural	160	Chhaya Soni W/o Premlal
				67/4	Private	Agricultural	160	Vikramsingh S/o Ajit Singh Sikh
				67/6	Private	Agricultural	160	Vikramsingh S/o Ajit Singh Sikh
				102/2	Private	Agricultural	10	Samelal S/o Niradhin
				65/1	Private	Commercial	400	Shyam Agrawal S/o Rameswar Agrawal
				65/2	Private	Agricultural	200	Virendra Kumar S/o Babulal
				65/3	Private	Agricultural	200	Shyam Agrawal S/o Rameswar
				65/4	Private	Agricultural	200	Kantaram & Prakash Rai
				64/1	Private	Agricultural	810	Santosh S/o Kartikram
				60/3	Private	Agricultural	1210	Sahorik S/o Padum
				60/5	Private	Agricultural	970	Uderam S/o Baisakhu
				58/3	Private	Agricultural	1420	Taukeer Ahmed S/o Moid Ahmed etc.
				57/1	Private	Agricultural	2020	Mamuram S/o Khapram
				57/4	Private	Agricultural	690	Dinesh Kumar S/o Murari Lal
				57/5	Private	Agricultural	4280	Joseph Lakda S/o Bangla Lakda
				269/6	Private	Agricultural	320	Rampal S/o Kunwar Singh
				269/7	Private	Agricultural	360	Girish Kumar S/o G.P. Jaiswani

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				279	Private	Agricultural	616	Mahinder Singh Kang S/o Bhagat Singh Kang
				269/4	Private	Agricultural	380	Phuleshiya W/o Babram
				268	Private	Agricultural	400	Lakhan Lal S/o Mansaram
				266/1	Private	Agricultural	690	Rajendra Agrawal S/o Hajari Lal
				267	Private	Agricultural	400	Amar Singh S/o Mukharam
				250	Private	Agricultural	320	Bhagawat S/o Mahadin
				260/1	Private	Agricultural	490	Bhagawat S/o Mahadin
				260/3	Private	Agricultural	160	Amar Singh S/o Mukharam
				249/1	Private	Agricultural	200	Baldev S/o Baburam
				249/2	Private	Agricultural	240	Baldeo S/o Baburam
				249/3	Private	Agricultural	320	Maniklal S/o Baburam
				19	Private	Agricultural	5408	Madho etc. S/o Phalsingh
				20/1	Private	Agricultural	530	Joseph Lakda S/o Bangla Lakda
				20/2	Private	Agricultural	2240	Marya Toppo W/o R.S. Toppo
				22	Private	Agricultural	336	Kachrabai W/o Jeevan
				23/2	Private	Agricultural	448	Gyansingh S/o Khushiya Singh
				23/1	Private	Agricultural	3850	Gyansingh S/o Khushiya Singh
				23/3	Private	Agricultural	672	Gyansingh S/o Khushiya Singh
				57/2	Private	Agricultural	6900	Matruram S/o Roopram
				24/1	Private	Agricultural	110	Ranjeet Singh S/o Karolus Toppo
				57/3	Private	Agricultural	2020	Joseph Lakda S/o Bangla Lakda
				303/1	Private	Agricultural	1728	Harish Saluja S/o Sardari Lal
				303/8	Private	Agricultural	280	Akshay S/o Ganesh Prasad Agrawal
				303/7	Private	Agricultural	450	Harish S/o Sardari Lal
				300	Private	Agricultural	1320	Bhoomsen S/o Manohar Lal etc.
				299	Private	Agricultural	1740	Virendra S/o Babulal Verma
				297/1	Private	Agricultural	1612	Baldev S/o Baburam
				296/1	Private	Agricultural	1456	Uderam S/o Baisakhu
				296/3	Private	Agricultural	1064	Ku. Prabha D/o Surajbhan

3978 4711-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				290/2	Private	Agricultural	1440	Kashiram etc. S/o Bahadur
				280/1	Private	Agricultural	100	Deepesh Singh S/o Narayan Singh
				280/2	Private	Commercial	1210	Sevasingh S/o Mohan Singh etc.
				280/3	Private	Commercial	400	Sevasingh S/o Mohan Singh etc.
				280/4	Private	Agricultural	420	Vijay Kumar S/o M.L. Gupta
				280/5	Private	Commercial	450	Sivram S/o Seva Ram
				280/6	Private	Agricultural	3640	Rajendra Agrawal S/o Hajari Lal
				281/1	Private	Agricultural	100	Manohar S/o Phoolsing
				168	Government	Grass	200	Government of Chhattisgarh
				228/1	Government	Small trees forest & Grass Land	3900	Government of Chhattisgarh
				228/1	Government	Pound	13780	Government of Chhattisgarh
				67/5	Government	Abadi	450	Government of Chhattisgarh
				67/1	Government	Small trees forest & Grass Land	450	Government of Chhattisgarh
				68	Government	Small trees forest & Grass Land	120	Government of Chhattisgarh
				147	Government	Below water	4050	Government of Chhattisgarh
				437	Government	Grass	490	Government of Chhattisgarh
				438	Government	Grass	1210	Government of Chhattisgarh
				228/5	Government	Abadi	1090	Government of Chhattisgarh
				210	Government	Below water (River)	7800	Government of Chhattisgarh
			(2) Mohada	716	Private	Commercial land	2100	Snehil S/o Shivkumar S/o Mulchand
				715	Private	Agricultural	3700	Madho, Manohar S/o Phulsingh etc.
				935	Private	Agricultural	910	Rajendra Sawanni S/o Indrasen Sawanni
				931	Private	Agricultural	1350	Rajendra Sawanni S/o Indrasen Sawanni
				930/3	Private	Agricultural	1850	Pradeep Kumar S/o Chaman Lal Chaddha
				926/2	Private	Agricultural	40	Khamhan, Samhan etc. S/o Sirdari
				925	Private	Agricultural	2500	Pradeep Kumar S/o Chaman Lal Chaddha
				924	Private	Agricultural	2020	Mathuraprasad S/o Ramcharan
				888/1	Private	Agricultural	570	Khamhan, Samhan etc. S/o Sirdari

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				888/5	Private	Agricultural	80	Khamhan, Samhan etc. S/o Sirdari
				888/6	Private	Agricultural	400	Manoj S/o Nandlal Jaiwani
				995/1, 995/2, 995/3, 995/4, 995/5	Private	Agricultural	980	Manish Agrawal S/o Maheshchandra, Anand Khedia S/o Radheshyam Khedia
				994	Private	Agricultural	288	Baldeo Prasad S/o Baburam
				993/2, 993/3	Private	Agricultural	700	Rajendra Agrawal S/o Hajari Prasad, Balbhav S/o K.K. Srivastava
				990/2	Private	Agricultural	1480	Hajari Lal S/o Samundram
				976/1	Private	Agricultural	120	Radheshyam Khedia S/o Chupilal
				975	Private	Agricultural	80	Radheshyam Khedia S/o Chupilal
				974/4	Private	Agricultural	160	Radheshyam Khedia S/o Chupilal
				973/2	Private	Agricultural	200	Suresh Chandra S/o Ganpat Ram
				967/1	Private	Agricultural	240	Padma Srivastava S/o K.K. Srivastava
				959/1	Private	Agricultural	160	Pradeep Kumar S/o Chaman Lal Chaddha
				959/2	Private	Agricultural	160	Padma Srivastava S/o K.K. Srivastava
				958/1	Private	Agricultural	490	Gendaram S/o Umenda
				957/1	Private	Agricultural	100	Pawan Kumar S/o Radheshyam
				955/1	Private	Agricultural	160	Harish S/o Radheshyam Agrawal
				955/3	Private	Agricultural	160	Virendra Kumar S/o Babulal Verma
				954/3	Private	Agricultural	400	Sevak Ram S/o Dhanvar
				954/2	Private	Agricultural	400	Kusumdevi W/o Brijmohan etc.
				947/1	Private	Agricultural	400	Rajkumar S/o Bajrang Kedia
				945	Private	Agricultural	1050	Abdul Gaffar S/o Abdul Settar
				944/1-3	Private	Agricultural	1050	Puspadevi W/o Durgaprasad
				944/2	Private	Agricultural	1290	Y Rajkeshwar S/o Y R Krishna
				937	Private	Agricultural	280	Kamala D/o P.B. Babu, Link Road
				721/1	Government	Small trees forest & Grass Land	15610	Government of Chhattisgarh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				883	Government	Below water	60	Government of Chhattisgarh
				882	Government	Small trees forest & Grass Land	10	Government of Chhattisgarh
				887	Government	Small trees forest & Grass Land	4900	Government of Chhattisgarh
				946	Government	Small trees forest & Grass Land	80	Government of Chhattisgarh

[F.No. NHA/LA/11013/01/Notif.-C.G./Raipur]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.